



# NHPC Limited

(A Government of India Enterprise)

CIN: L40101HR1975GOI032564

Regd. Office : NHPC Office Complex, Sector- 33, Faridabad-121003 (Haryana)

E-mail : [sbd-co@nhpc.nic.in](mailto:sbd-co@nhpc.nic.in), EPABX No. : 0129-2588110 / 2588500

Website: [www.nhpcindia.com](http://www.nhpcindia.com)

## FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7)]

Company Petition No. 24/6 of 2022 CL-III

In the Matter of Scheme of Arrangement between Lanco Teesta Hydro Power Limited (Transferor Company) with NHPC Limited (Transferee Company)

### Notice and Advertisement of notice of the meeting of Unsecured Creditors, Secured Creditors and Members

Notice is hereby given that by an order dated the 23<sup>rd</sup> February 2023 the Ministry of Corporate Affairs ("MCA/Central Government") has directed separate meetings of Secured creditors, Unsecured Creditors and Equity Shareholders of NHPC Limited (Company) for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the scheme of arrangement proposed to be made between Lanco Teesta Hydro Power Limited (Transferor Company) with NHPC Limited (Transferee Company).

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of Members of the company will be held through Video Conferencing Mode or other Audio-Visual Mode (OAVM) on Friday the 29<sup>th</sup> day of September 2023 at 12:30 O'clock and the Members are requested to attend the same.

Further in pursuance of the said order and as directed therein notice is hereby given that a meeting of Secured Creditors of the company having a debt value of Rs. 1,00,00,000 or more (as on 15.07.2022) will be held through Video Conferencing Mode or other Audio-Visual Mode (OAVM) on Friday the 29<sup>th</sup> day of September 2023 at 14:30 O'clock and the Secured Creditors are requested to attend the same.

Further in pursuance of the said order and as directed therein notice is hereby given that a meeting of Unsecured Creditors of the company having a debt value of Rs. 1,00,00,000 or more (as on 15.07.2022) will be held through Video Conferencing Mode or other Audio-Visual Mode (OAVM) on Friday the 29<sup>th</sup> day of September 2023 at 16:00 O'clock and the Unsecured Creditors are requested to attend the same.

Copies of the said arrangement, and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the company situated at NHPC Office Complex Sector-33 Faridabad Haryana-121003 India.

The MCA vide order dated 23<sup>rd</sup> February 2023 and letter dated 16<sup>th</sup> August 2023 has appointed Shri Mohammad Afzal as Chairperson of the Creditors & Shareholders meeting. The above-mentioned compromise or arrangement or amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the MCA.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the Meetings and other documents will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/RTA/ Depository Participant(s). The Notice of the meetings will also be available on the Company's website at [www.nhpcindia.com](http://www.nhpcindia.com), on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), and on the website of e-voting service provider i.e. M/s. National Securities Depository Limited

## Genus Power Infrastructures Limited

**Genus**  
energizing lives

(Registered Office: G-123, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh)  
(Tel.: +91-120-2581999; E-mail: [cs@genus.in](mailto:cs@genus.in); Website: [www.genuspowers.com](http://www.genuspowers.com);  
CIN: L51909UP1992PLC051997)

### Notice of the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting, Record Date and E-Voting Information

Notice is hereby given that the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus Power Infrastructures Limited ("Company") will be held on Thursday, September 28, 2023 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI, in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") to transact the business as set forth in the Notice of AGM.

In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent to all those members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) /Depositories. The aforesaid documents shall also be available on website of the Company at [www.genuspowers.com](http://www.genuspowers.com), website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and website of the Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, permanent account number (PAN), nominations, power of attorney, bank details (such as name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code), etc., to their DPs, in case the shares are held in electronic form, and to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (i.e. M/s. Niche Technologies Private Limited, Kolkata) ("RTA"), through Form ISR-1/ISR-2, as applicable, along with necessary supporting documents, in case the shares are held in physical form. Further, members may note that SEBI has mandated the submission of PAN by every participant in the securities market.

Members holding shares as on the cut-off date i.e. September 21, 2023 (including Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company) may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting during the AGM by following the procedures/instructions, mentioned in the Notice of AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting and joining the AGM are provided in the notice of AGM. Please read the instructions mentioned in the Notice of AGM before exercising your vote.

The Board of Directors has recommended a dividend of Re.0.75 (Seventy Five paise) per equity share of face value of Re.1/- each (75% of the face value) for the FY 2022-23 to the Members for their approval. The Company has fixed Thursday, September 21, 2023 as the "Record Date" for the purpose of determining the Members eligible to receive dividend for the financial year 2022-23. The dividend, if declared at the AGM, will be paid within a period of 30 days from the conclusion of the AGM to those Members whose name appears in the Register of Members as of the close of business hours on Thursday, September 21, 2023 subject to deduction of tax at source, where applicable. The dividend will be paid through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details. Dividend warrants / demand drafts will be dispatched to the registered address of the Members who have not updated their bank account details. To avoid delay in receiving dividend directly in bank account, Members are requested to update their bank details with their Depository Participants, where shares are held in dematerialised mode, and with the RTA/Company, where the shares are held in physical mode.

For Genus Power Infrastructures Limited

**Ankit Jhanjhari**  
Company Secretary

Place : Jaipur

Dated : August 26, 2023

Continued from previous page...

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and Sub-Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50 % of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), the "QIB Portion", provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Portion. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" beginning on page 195 of this Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/ Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.

**CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS:** For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Corporate Structure" on page 119 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 266 of the Red Herring Prospectus.

**LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA:** The Liability of the members is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

**AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE:** The Authorized share Capital of the Company is Rs. 25,00,00,000/- (Rupees Twenty Five Crores only) divided into 2,50,00,000 (Two Crore Fifty Lakh) Equity Shares of Rs.10/- (Rupees Ten only) each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 53 of the Red Herring Prospectus.

**NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:** Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Balakrishnan - 7,500 Equity Shares and D. Pinto Sasikumar - 12,500 Equity Shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 119 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 53 of the Red Herring Prospectus.

**LISTING:** The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the NSE EMERGE (SME Platform of NSE). Our Company has received an 'in-principle' approval from the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated August 23, 2023. For the purpose of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be NSE Limited (NSE). A signed copy of the Red Herring Prospectus has been delivered for registration to the ROC on August 24, 2023 and Prospectus shall be delivered for filing to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 266 of the Red Herring Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI):** Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire SEBI Disclaimer Clause beginning on page 172 of the Red Herring Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE ("SME Platform of NSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by NSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE.

**GENERAL RISK:** Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 22 of the Red Herring Prospectus.

**ASBA\*** Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it !!! \*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below. Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No Cheque will be accepted

**UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors (RII)\*\*** Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI – Now available in ASBA for RIBs applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. RIBs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

Investors have to apply through the ASBA process. \*ASBA has to be availed by all the investors except anchor investor. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 195 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the Stock Exchanges and in the General Information Document.

\*ASBA forms can be downloaded from the website of NSE ("NSE Emerge")

\*\*List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in). AXIS Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id- [upi@npci.org.in](mailto:upi@npci.org.in). For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in). For issue related grievance investors may contact: GYR Capital Advisors Private Limited -Mr. Mohit Baid (+91 87775 64648) (Email Id: [info@gyrcapitaladvisors.com](mailto:info@gyrcapitaladvisors.com))

<p><b>BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE</b></p> <p><b>GYR Capital Advisors</b>  <small>QUALITY   INTEGRITY   KNOWLEDGE</small>  <b>GYR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED</b>                  (Formerly known as Alpha Numero Services Private Limited)                  428, Gala Empire, Near JB Tower, Drive in Road, Mumbai- 400011, Maharashtra  <b>Telephone:</b> +91 87775 64648  <b>Fax:</b> N.A.  <b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@gyrcapitaladvisors.com">info@gyrcapitaladvisors.com</a>  <b>Website:</b> <a href="http://www.gyrcapitaladvisors.com">www.gyrcapitaladvisors.com</a>  <b>Investor grievance:</b> <a href="mailto:investors@gyrcapitaladvisors.com">investors@gyrcapitaladvisors.com</a>  <b>Contact Person:</b> Mohit Baid  <b>SEBI Registration Number:</b> INM000012810</p>	<p><b>REGISTRAR TO THE ISSUE</b></p> <p><b>PURVA SHAREISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED</b>  <b>Address:</b> 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400011, Maharashtra  <b>Tel:</b> +91-022-4961-4132, 022-3199-8810  <b>Fax:</b> N.A.  <b>Website:</b> <a href="https://www.purvashare.com/">https://www.purvashare.com/</a>  <b>Investor Grievance Email:</b> <a href="mailto:support@purvashare.com">support@purvashare.com</a>  <b>Contact Person:</b> Ms. Deepali Dhuri  <b>SEBI Registration Number:</b> INR000001112</p>	<p><b>COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER</b></p> <p><b>BASILIC FLY</b>  <b>Mr. Nikhil Mishra</b>  <b>BASILIC FLY STUDIO LIMITED</b>                  Tower A, KRC Commerzone, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai Tamil Nadu 600116 India  <b>Telephone No.:</b> + 91 94164 22212  <b>Website:</b> <a href="http://www.basilicflystudio.com">www.basilicflystudio.com</a>  <b>Email:</b> <a href="mailto:cs@basilicfly.com">cs@basilicfly.com</a>  <b>CIN:</b> U24224GJ2002PLC041119</p> <p>Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.</p>
---	--	--

**AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS:** Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), website of the Company at [www.basilicflystudio.com](http://www.basilicflystudio.com), the website of the BRLM to the Issue at [www.gyrcapitaladvisors.com](http://www.gyrcapitaladvisors.com), the website of NSE Emerge at [https://www1.nseindia.com/emerge/index\\_sme.htm](https://www1.nseindia.com/emerge/index_sme.htm), respectively.

**AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS:** Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Tower A, KRC Commerzone, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai Tamil Nadu 600116 India, Telephone: + 91 94164 22212; BRLM: GYR Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91 87775 64648 and the **Syndicate Member: Girraj Stock Broking Private Limited**, Telephone: 91-22-67341600, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

**ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK:** HDFC BANK Limited.

**UPI:** Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

Place: Chennai  
Date: August 26, 2023

**Disclaimer:** Basilic Fly Studio Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Chennai on August 24, 2023 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The RHP is available on the website of NSE Emerge at [https://www1.nseindia.com/emerge/index\\_sme.htm](https://www1.nseindia.com/emerge/index_sme.htm) and is available on the websites of the BRLM at [www.gyrcapitaladvisors.com](http://www.gyrcapitaladvisors.com). Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

On behalf of Board of Directors  
**For BASILIC FLY STUDIO LIMITED**  
 Sd/-  
**Mr. Nikhil Mishra**  
 Company Secretary & Compliance Officer

**ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (सीआरटी 2)**  
 एसीओ 33-34-36, सेक्टर-17-ए, चंडीगढ़  
 (पीएच और पीओ तल पर भी अतिरिक्त जगह आवंटित)  
 केस नं.: ओए/326/2020

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम(2)(ए) के साथ पठित, के तहत सभ्य ईएसएफ. नं.: 19695

**बैंक ऑफ इंडिया बनाम एमएस नरम दास कैरियर**

प्रति,  
 (1) एमएस नरम दास कैरियर डी/डब्ल्यू/एफ/ओ- श्री महीपाल सिंह, एक एकल स्वामित्व फर्म, कार्यालय पता: दुकान नं. 4, गौर बास कला सुमेर सिंह मार्केटिंग, गुडगाँव, अपने एकल स्वामी के माध्यम से, गुडगाँव, हरियाणा  
 (2) महीपाल सिंह पुत्र श्री अनम सिंह, नरम दास कैरियर, निवासी गाँव सेहरावन, पोस्ट कारन, जिला गुडगाँव, हरियाणा

**समन**  
 जबकि, ओए/326/2020 दिनांक 03.08.2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी/पंजीयक के साथ सूचीबद्ध हुआ था।  
 जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 27.61,944.25 के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध (ओए) अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर समन/नोटिस जारी करने के लिए संयुक्त है (दस्तावेज आदि की प्रतियाँ सहित आवेदन संलग्न हैं)।  
 अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा(4) के अनुपालन में आप, प्रतिवादी को निम्न निदेश दिए जाते हैं:-  
 (i) मांगी गई राहत वगैरह न दी जाए का समन की सर्जिस के तौर से दिनों के अंदर कारण बताओ;  
 (ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3ए पर आवेदक द्वारा उल्लिखित संपत्तियों और परिसंपत्तियों से इतर संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकटन;  
 (iii) प्रत्येक परिसंपत्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए पर उल्लिखित, विधायनी और संपत्तियों की कुली के लिए आवेदन के निपटारन के तहत ऐसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों से लेन-देन या निपटारन करने से आज निषिद्ध है;  
 (iv) किसी परिसंपत्ति वित्त पर प्रतिभूति हित किया गया है और/या मूल आवेदन के क्रमांक 3ए पर उल्लिखित अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों को बिना न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के विक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके, उसके व्यवसाय के सामान्य तरीके को छोड़कर, आप हस्तान्तरित नहीं करेंगे;  
 (v) प्रत्येक परिसंपत्तियों या व्यवसाय के सामान्य तरीके में अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की विक्री से प्राप्त किसी परिसंपत्तियों का हिस्सा देने और ऐसी विक्री परिसंपत्तियों को ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों में अनुचित खाते में जमा करना होगा।  
 आपके लिखित बयान दर्ज करने और इसकी एक प्रति आवेदक को देने तथा 07.11.2023 को समय सुबह 10:30 बजे पंजीयक के सम्मह हाज़िर होने का भी निदेश किया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपके गैर-हाज़िरी में ही सुनवाई की जायेगी और निर्णय दिया जायेगा।  
 मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत दिनांक: 05.08.2023 को जारी  
 समन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर  
 ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (सीआरटी 2)

**PUBLIC NOTICE**  
 Property No. 1027/1, Silver Oak Apts, Phase-1, DLF, Gurgaon - 120002, was registered in the name of Mr Ravinder Kumar Suri (RO above), s/o Late Sh. Panna Lal Suri, who expired on 01st January 2014, leaving behind no registered or unregistered WILL. Accordingly, the names of Mrs. Manju Suri (W/o Late Mr. Ravinder Kumar Suri & also R/O above) and Mr. Siddharth Suri (S/o Late Mr. Ravinder Kumar Suri & also R/O above) are being put in DLF's record in respect of the above-captioned property. If anybody has any objection to this, he or she may approach Ms/ DLF Ltd or the undersigned within 21 days of the Publication of this notice.  
 Legal Heirs  
 Mrs. Manju Suri / Mr. Siddharth Suri  
 Mrs. Simeran Sethi

**U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.**  
 VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010  
 Ph.: 0522-2307826/28  
 Email : [upstat糖sugarcorporation@gmail.com](mailto:upstat糖sugarcorporation@gmail.com), [www.upsugarcorp.in](http://www.upsugarcorp.in)

Ref. No. : PER/SSC/287 Date : 25.08.2023

**INVITATION OF E-BIDS**  
 For selection of Outsourcing agency for work related to Cane Deptt. for computerization and operation of Cane weighment, cane marketing system for Pipraich (Gorakhpur) & Munderwa (Basti) units for the sugar season 2023-24 & 2024-25  
 USSPCL invites e-bids for selection of Outsourcing agency for work related to Cane Deptt. for computerization and operation of Cane weighment, cane marketing system for Pipraich (Gorakhpur) & Munderwa (Basti) units. Bid Document containing details of scope of work, eligibility criteria, technical specifications other terms & conditions etc can be downloaded from website [www.upsugarcorp.in](http://www.upsugarcorp.in) Interested Bidders may submit their e-Bid on the website [www.etenderup.nic.in](http://www.etenderup.nic.in) as per conditions given in tender form upto 18.09.2023 till 5.00 pm. e-bids shall be opened on 20.09.2023 at 12.00 Noon. Managing Director, USSPCL reserves the right to reject any/all tenders without assigning any reason.  
**MANAGING DIRECTOR**

**BASANT FINANCE GOLD LOAN**  
 पंजीकृत कार्यालय: 912, इंदर प्रकाश विल्डिन्ग, 21- वादावाह रोड, नई दिल्ली 110001  
 वेबसाइट: <https://www.basantfinance.com>,  
 ईमेल: [basant.india@gmail.com](mailto:basant.india@gmail.com)

**सोने की नीलामी सार्वजनिक सूचना**  
 यहाँ सूचीबद्ध अधाकर्तओं, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों, समन्वयितियों और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यहाँ नीचे सूचीबद्ध अधाकर्त मंजूरी की शर्तों के अनुसार उनके द्वारा लिए गए ब्याज और/या मूल ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। वसूली की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन ऋणों में गिरवी रखे गए सोने के गड़नों की नीलामी करने का निर्णय लिया है।

**नीलाम किए जाने वाले स्वर्ण ऋण खातों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:**

क्र. सं.	शाखा	अधाकर्ता का नाम	स्वर्ण ऋण खाता संख्या	गनों/ गड़नों की कुल संख्या	कुल सकल वजन (ग्राम)
1	BHAJANPURA	ABHISHEK SONI	GL/B101/000961R	1	2.60
2	BHAJANPURA	ABHISHEK SONI	GL/B101/001003R	1	3.25
3	BHAJANPURA	AKSHAYA	GL/B101/001411	1	1.10
4	BHAJANPURA	ANKUSH RAWAT	GL/B101/001246	2	1.65
5	BHAJANPURA	ARIF IMAM	GL/B101/001735	1	2.65
6	BHAJANPURA	ASIF	GL/B101/001972	1	2.55
7	BHAJANPURA	BHAWANA	GL/B101/001688	2	3.45
8	BHAJANPURA	BOBY	GL/B101/001201	3	5.30
9	BHAJANPURA	BOBY	GL/B101/001924	3	10.50
10	BHAJANPURA	CHAMAN KHAN	GL/B101/001566	1	5.30
11	BHAJANPURA	GAGAN SHSIDOIA	GL/B101/002068	2	2.15
12	BHAJANPURA	HARINDER	GL/B101/000631R	1	13.30
13	BHAJANPURA	MOHAMMAD AKRAM ANSARI	GL/B101/000511RR	8	6.55
14	BHAJANPURA	MOHD SHOAB	GL/B101/001662	1	4.40
15	BHAJANPURA	MUZAHD KHAN	GL/B101/000894	4	9.55
16	BHAJANPURA	MUZAHD KHAN	GL/B101/001001	1	4.80
17	BHAJANPURA	MUZAHD KHAN	GL/B101/001023	1	9.15
18	BHAJANPURA	NIKHIL MITTAL	GL/B101/001937	1	2.50
19	BHAJANPURA	PANKAJ TOMAR	GL/B101/001778	1	2.65
20	BHAJANPURA	SANDEEP SINGH	GL/B101/001585	2	3.50
21	BHAJANPURA	SHAILENDRA KUMAR SINGH	GL/B101/001619	1	1.40
22	BHAJANPURA	SUMITRA	GL/B101/001810	2	3.80
23	BHAJANPURA	VIKASH	GL/B101/001925	5	8.05
24	BHAJANPURA	VIVEKA	GL/B101/001302	12	42.80
25	RANIBAGH	HIMANSHU MISHRA	GL/B102/000987	1	10.20
26	RANIBAGH	RESHMA SETHI	GL/B102/001303	1	4.25
27	RANIBAGH	SHIVANI MISHRA	GL/B102/000952	1	6.70
28	DOORSTEP VERTICAL	VIKRAM KATARIA	GL/DS01/000007	12	252.82
29	DOORSTEP VERTICAL	VIKRAM KATARIA	GL/DS01/000008	13	96.58
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>86</b>	<b>526.50</b>

**इच्छुक बोलीदाता सोने के आभूषणों का निरीक्षण 14 सितंबर 2023 (गुडवाट) को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच निमनलिखित पते पर कर सकते हैं: बसंत फाइनेंस गोल्ड लोन, सी-15/7, पहली मंजिल, गली नंबर 1/1, सवदे के पास, मुख्य वनीदावा रोड, भजनपुरा, दिल्ली-110053।**  
**सोने के गड़नों की नीलामी 14 सितंबर 2023 (गुडवाट) को दोपहर 2:00 बजे उपरोक्त पते पर आयोजित की जाएगी।**  
**कृपया ध्यान दें:**  
 1. ऊपर सूचीबद्ध अधाकर्तओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे कंपनी को अपनी पूरी बकाया राशि नीलामी की ऊपर अधिसूचित तिथि से। दिन पहले तक चुका सकते हैं और अपनी प्रतिभूति प्राप्त कर सकते हैं।  
 2. बोलीदाताओं को निरीक्षण और नीलामी की तारीख 14 सितंबर 2023 को समझौते/हमनाम, केवाईडी दस्तावेज, रड किंग एर चेक और जीएनटीआरएल के साथ डीडी, ऑनलाइन या नकद के माध्यम से 50000 रुपये (केवल पचास हजार रुपये) की वधाना राशि जमा करनी होगी।  
 3. बोलीदाताओं को निरीक्षण के दिनों की जागृणी।  
 4. नीलामी के मामले में इसकी भी विवाद की स्थिति में बसंत इंडिया लिमिटेड के एमडी का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों को स्वीकार्य होगा।  
 5. खातों की स्थिति में परिवर्तन के कारण उपरोक्त सूची में परिवर्तन हो सकता है।

दिनांक: 28.08.2023  
 स्थान: दिल्ली  
 ईमेल: [basant.india@gmail.com](mailto:basant.india@gmail.com)

हस्ता/-  
 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
 कृते बसंत इंडिया लिमिटेड

**जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड** **Genus**  
energizing lives  
 (पंजीकृत कार्यालय: सी-123, सेक्टर-49, मोहन-203307 (उत्तर प्रदेश))  
 (फोन: +91-120-2581999; ई-मेल: [cs@genus.in](mailto:cs@genus.in), [webmaster@www.genuspower.com](mailto:webmaster@www.genuspower.com); CIN: L51909UP1992PLC051997)

**31वीं वार्षिक साधारण सभा, रिपोर्ट तिथि तथा ई-वोटिंग की सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की 31वीं वार्षिक साधारण सभा ( "एजीएम") गुडवाट, 28 सितंबर 2023 को प्रातः 11:00 बजे ( भारतीय समयानुसार ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (" वीडियो") अथवा अन्य ऑनलाइन विडियो माध्यमों (" ऑनलाइन") की सुविधा के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके निर्मित नियमों तथा सेवा ( सूचीबद्ध दस्तावेज तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ) विनियम, 2015 के साथ कॉम्प्लायेंट कार्य प्रक्रिया एवं सेवा द्वारा जारी उद्युक्त सर्वरों (" उद्युक्त सर्वरों") के अनुसार सभा होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में मांगे कार्यवाही का पूरा करने हेतु निर्धारित हुई है।

उपयुक्त सर्वरों के अनुसार, एजीएम का नोटिस एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट, इमेल द्वारा उन सदस्यों को भेजी जायेगी, जिनके इमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और दुसरे एजेंट (" आरटीए")/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। उपासक दस्तावेज, कंपनी की वेबसाइट [www.genuspower.com](http://www.genuspower.com) सेजल डिपॉजिटरी सर्विस ( इंडिया ) लिमिटेड (" सीडीएस")/CDSL) की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध रहेंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने नाम, इमेल, डाक पते, मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या ( पैन ), न्यायिक, पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक विवरण ( जैसे बैंक और शाखा का नाम ), बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, से संबंधित परिवर्तन/अपडेट करने के लिए डिपॉजिटरी प्रतिमांगी, ( यदि शंभर डीमैट में है तो ) तथा कंपनी के आरटीए ( शंभर दुसरे एजेंट ) मेसर्स निश टेक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, ( यदि शंभर भौतिक रूप में है तो ) को फॉर्म आईएसआर-1/आईएसआर-2 को आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ भेजें। सभी सदस्य ध्यान दें कि सभी प्रतिभूति बजार में प्रत्येक भगोदार के लिए पैन जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

कट ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2023 को शंभर प्रातः करने वाले सदस्य ( वे सदस्य भी, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिनके पास कंपनी के शेयर अपने इमेल पते पंजीकृत नहीं किया है ), 31वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट कार्यवाही पर एजीएम के दौरान एजीएम के नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं/निर्देशों का पालन करके ई-वोटिंग अथवा दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग और एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट है। कृपया अपना वोट देने से पहले एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों को पढ़ें।

निदेशक संघल व वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु 0.75 (पचास पैसे) प्रति इंडिवाइडुअल शेयर ( 1 रु. अंकित मूल्य पर ) ( अंकित मूल्य का 75 प्रतिशत ) लाभांश शेरधारकों को अनुमति के लिए प्रस्तावित किया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश प्राप्त करने के पात्र सदस्यों का निर्धारण करने के उद्देश्य से गुडवाट, 21 सितंबर 2023 को " रिपोर्ट तिथि " के रूप में तय किया है। लाभांश ( खाते पर कर कटौती के अधीन यदि लागू है ), यदि एजीएम में भागित किया जाता है, तो एजीएम के समापन से 30 दिनों की अवधि के भीतर उन सदस्यों को भूतगत किया जाएगा, जिनका नाम गुडवाट, 21 सितंबर, 2023 को सदस्य रजिस्ट्रार में व्यवसायिक घंटों के बंद होने के समय दर्ज है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है, उन्हें लाभांश का भूतगत विनियम ऑनलाइन हस्तांतरण माध्यम से किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अप